



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 10—जून 16, 2006 (ज्येष्ठ 20, 1928)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 10—JUNE 16, 2006 (JYAISTHA 20, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

मुंबई, दिनांक 25 मई 2006

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण, अप्रैल 2006 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

#### सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के धुरतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
भायखला (मुंबई सर्कल)					
9% राहत पत्र 1999 (डीमेट) (जी.पी.एच.)					
डीसीएन-007344 से	रु. 1,00,000/- X 5	जयेश वसंत वैद्य	2.9.1999	जयेश वसंत वैद्य	06.25.95
बीसीएन-007348 तक		मालिनी जयेश वैद्य		मालिनी जयेश वैद्य	2.9.2005

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
नई दिल्ली सर्कल					
7.5% भारत सरकार ऋण 2010					
डीएच-000373	रु. 1,00,000/-	फेडरल बैंक लि.	12.11.81	बी.पी. सिंघल और पी.के. धवन ट्रस्टी हिन्द लैम्प ईपीएफ (एकजम्पटेड एम्प्लॉईज)	एलएन-6/2005 13.4.2006
डीएच-000329	रु. 1,85,000/-	-वही-	12.05.81	-वही-	-वही-
7% भारत सरकार का ऋण 2009					
डीएच-000247	रु. 27,000/-	विनोद कुमार एंड कम्पनी	25.05.81	-वही-	-वही-
डीएच-000248	रु. 20,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएच-000249	रु. 6,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
9% भारत सरकार का ऋण 2013					
डीएच-000184	रु. 1,00,000/-	बैंक ऑफ बड़ौदा	-वही-	-24.05.83-	-वही-
डीएच-000185	रु. 1,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएच-000255	रु. 50,000/-	फेडरल बैंक लि.	-वही-	-वही-	-वही-
डीएच-000256	रु. 45,000/-	फेडरल बैंक लि.	-वही-	-वही-	-वही-
10% भारत सरकार का ऋण 2014					
डीएच-000212	रु. 1,00,000/-	बैंक ऑफ बड़ौदा	30.11.84	-वही-	-वही-
डीएच-000213	रु. 1,00,000/-	बैंक ऑफ बड़ौदा	-वही-	-वही-	-वही-
डीएच-000214	रु. 1,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
10.5% भारत सरकार का ऋण 2014					
डीएच-000105	रु. 2,00,000/-	-वही-	29.4.85	-वही-	-वही-
9% राहत बॉण्ड 1999					
डीएच-000736	रु. 5,00,000	अशोक गर्ग, बबीता गर्ग और सतपाल गर्ग कोई एक या उत्तरजीवी	जी.पी. क्यूम्यूलेटिव आईसीआईसीआई बैंक लि.		एलएन-2/2005 24.4.2006
डीएच-000737	रु. 5,00,000	अशोक गर्ग, बबीता गर्ग और सतपाल गर्ग कोई एक या उत्तरजीवी	जी.पी. क्यूम्यूलेटिव आईसीआईसीआई बैंक लि.		एलएन-2/2005 20.4.2006
डीएच-000738	रु. 5,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएच-000739	रु. 5,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएच-000740	रु. 5,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएच-000741	रु. 5,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएच-000742	रु. 5,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

## सूची "ख"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6

-कुछ नहीं-

जे.एम. बाबा, सहायक प्रबंधक

न्यासी, भारतीय खाद्य निगम

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 अप्रैल 2006

भारतीय खाद्य निगम (संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित) अंशदायी भविष्य निधि न्यास, 16-20, बाराखम्बा लेन, कनाट प्लेस,  
नई दिल्ली-110001

अं.भ.नि.V/21(3)2005.--भारतीय खाद्य निगम अंशदायी भविष्य निधि विनियम-1967 के विनियम-5 में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत के राजपत्र सं. 40 (अक्टूबर 1-अक्टूबर 7, 2005) में प्रकाशित अधिसूचना सं. सीपीएफ V/21(3)2003 दिनांक 15.09.2005 के द्वारा अधिसूचित भारतीय खाद्य निगम अंशदायी भविष्य निधि बोर्ड के न्यासी के रूप में नामित श्री एम.एल. नागपाल, महाप्रबंधक (नी.एवं औ.सं.) का नामांकित एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वापस लिया जाता है।

भूपेश चंदोलिया, सचिव  
भारतीय खाद्य निगम, अं.भ.नि. न्यास

## GOVERNMENT &amp; BANK ACCOUNTS OF DEPARTMENT

Mumbai, dated the 25th May 2006

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April, 1946 (as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extra Ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990), the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended April 2006 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Government and Bank Accounts of Department, Central Debt Division, Mumbai-400008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised :—

## List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6

## Byculla, Mumbai Circle

## 9% Relief Bond 1999 (Demand) GPH

BCN 007344 to BCN 007348	Rs. 1,00,000/-x5	Jayesh Vasant Vaidya and Malini Jayesh Vaidya	2.9.1999	Jayesh Vasan Vaidya and Malini Jayesh Vaidya	06.25.95 2/9/2005
-----------------------------	------------------	--	----------	---	----------------------

## New Delhi Circle

## 7.5% GOI Loan 2010

DH-000373	Rs. 1,00,000/-	Federal Bank Ltd	12.11.81	B.P. Singhal & P.K. Dhawan, Trustees Hind Lamps EPF (Exempted Employee)	LN-6/2005 13.4.2006
DH-000329	Rs. 1,85,000/-	-do-	12.05.81	-do-	-do-

## 7% GOI Loan 2009

DH-000247	Rs. 27,000/-	Vinod Kumar & Co.	25.05.81	-do-	-do-
DH-000248	Rs. 20,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
DH-000249	Rs. 6,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-

## 9% GOI Loan-2013

DH-000184	Rs. 1,00,000/-	Bank of Baroda	24.05.83	-do-	-do-
DH-000185	Rs. 1,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
DH-000255	Rs. 50,000/-	Federal Bank Ltd.	24.11.83	-do-	-do-
DH-000256	Rs. 45,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-

List "A"

No. of Security	Value in Rs./ Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6

10% GOI Loan-2014

DH-000212	Rs. 1,00,000/-	Bank of Baroda	30.11.84	-do-	-do-
DH-000213	Rs. 1,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
DH-000214	Rs. 1,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-

10.5% GOI Loan-2014

DH-000105	Rs. 2,00,000/-	-do-	29.04.85	-do-	-do-
-----------	----------------	------	----------	------	------

9% Relief Bond 1999

DHC-000736	Rs. 5,00,000/-	Ashok Garg Babita Garg and Satpal Garg A/S	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DHC-000737	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DHC-000738	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DHC-000738	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DH-000740	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DHC-000741	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DHC-000742	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd	LN 2/2005 dt. 24.04.2006

List "B"

No. of Security	Value in Rs./ Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
NIL					

J.M. BAVA, Asstt. Manager

## TRUSTEES, FOOD CORPORATION OF INDIA

New Delhi-110001, dated the 28th April 2006

The Food Corporation of India (Established under an Act of Parliament) Contributory Provident Fund Trust,  
16-20 Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001

No. CPF.V/21 (3) /2005/.—In accordance with the Provisions Contained in Regulation 5 of the Food Corporation of India Contributory Provident Fund Regulation, 1967 the nomination of Shri M.L. Nagpai, General Manager (P&IR) to the FCI CPF Board of Trustees notified vide Notification No. CPF. V/21 (3)/2003 dated 15.09.2005 and published in Gazette of India No. 40 (October 1–October 7, 2005) is hereby withdrawn with the approval of the Competent Authority.

BHUPESH CHANDOLIA

Secy.

FCI CPF Trust